



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 16 जून, 2020

बैंक ऑफ महाराष्ट्र को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु.389 करोड़ का निवल लाभ

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के रु.4783 करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 389 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

परिणाम एक नजर में

परिचालन कार्य-निष्पादन:

- वित्तीय वर्ष 20 की चौथी तिमाही के लिए बैंक का परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.73% की बढ़ोत्तरी के साथ रु. 595 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 20 की चौथी तिमाही के लिए निवल लाभ रु.58 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 20 के लिए परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 29.55% की बढ़ोत्तरी के साथ रु. 2847 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 19 के रु.4784 करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 20 के लिए निवल लाभ रु. 389 करोड़ रहा।
- एनआईएम वित्तीय वर्ष 19 के 2.53% की तुलना में बढ़कर वित्तीय वर्ष 20 में 2.60% रहा।

व्यवसाय वृद्धि:

- कुल व्यवसाय वित्तीय वर्ष 19 के रु. 2,34,117 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 20 में बढ़कर रु.2,44,955 करोड़ रहा।
- बैंक की कासा जमाराशियां 31.03.2019 के 49.65% से बढ़कर 31.03.2020 को 50.29% रहीं।
- बचत खाता जमाराशियों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 7.80% बढ़ोत्तरी हुई, चालू खाता जमाराशियों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 9.32% बढ़ोत्तरी हुई।
- रिटेल अग्रिमों में 21.30% की बढ़ोत्तरी हुई और एमएसएमई अग्रिमों में 25.04% की बढ़ोत्तरी हुई।

पूंजी स्थिति :

- वित्तीय वर्ष 20 की समाप्ति पर 10.67% के सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात के साथ कुल पूंजी पर्याप्तता 13.52% रही।
- तरलता कवरेज अनुपात 184.74% रहा।



आस्ति गुणवत्ता:

- निवल एनपीए 31.03.2019 के 5.52% की तुलना में घटकर 31.03.2020 को 4.77% रहा।
- सकल एनपीए 31.03.2019 के 16.40% की तुलना में घटकर 31.03.2020 को 12.81% रहा।
- प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2019 के 81.49% की तुलना में बढ़कर 31.03.2020 को 83.97% रहा।
- कोविड-19 पर आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के परिपत्र के अनुसरण में बैंक द्वारा आवश्यक प्रावधान @5% अर्थात् रु.38 करोड़ की तुलना में कोविड-19 विनियामक पैकेज प्रावधान के प्रति वित्तीय वर्ष 20 में रु.150 करोड़ का प्रावधान किया गया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल ने मंगलवार, 16 जून, 2020 को पुणे में आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को अनुमोदन प्रदान किया।

लाभ-हानि खाता : 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि

- ① परिचालन लाभ 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के रु. 2197.61 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़कर रु.2847.06 करोड़ रहा। यह 31.03.2019 को समाप्त तिमाही के रु. 501.18 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु.595.07 करोड़ रहा।
- ① 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के रु.4783.88 करोड़ निवल हानि की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष को निवल लाभ रु.388.58 करोड़ रहा। 31.03.2020 को समाप्त तिमाही के लिए निवल लाभ रु. 57.57 रहा।
- ① निवल ब्याज आय 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए रु.3733.48 की तुलना में रु.545.32 करोड़ (14.61%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए रु.4278.80 करोड़ रही। यह 31.03.2019 को समाप्त तिमाही के रु.999.93 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 1022.51 करोड़ रही।
- ① निवल ब्याज मार्जिन (औसत ब्याज आय आस्तियों पर ब्याज अंतर) 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2.53% की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़कर 2.60% रहा।



॥ अग्रिमों पर आय 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए 7.68% की तुलना में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए 7.23% रहा।

॥ निवेश पर आय 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए 7.23% रहा।

तुलन पत्र : 31 मार्च, 2020 को

- ॥ कुल कारोबार 31.03.2019 के रु.2,34,117 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को बढ़कर रु.2,44,955 करोड़ हो गया।
- ॥ कुल जमाराशियां 31.03.2019 के रु.1,40,650 करोड़ की तुलना में 31.03.2020 को रु.1,50,066 करोड़ रहीं।
- ॥ कासा जमाराशियां 31.03.2019 के रु.69,830 करोड़ से बढ़कर 31.03.2020 को रु. 75,475 करोड़ हो गईं, जिनमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.08% की दर से रु.5,645 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। कासा 31.03.2020 को बढ़कर 50.29% रहा।
- ॥ निवल अग्रिम 31.03.2019 के रु.82,666 करोड़ की तुलना में 5.09% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2020 को बढ़कर रु.86,872 करोड़ हो गए।

पूंजी पर्याप्तता

- ॥ बेसल III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2019 के 11.86% की तुलना में 31.03.2020 को 13.52% रहा।
- ॥ सीईटी 1 अनुपात 10.67% रहा जो विनियामक न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर है। यह विभिन्न उपायों के माध्यम से सुविधाजनक रूप से पूंजी उगाहने की क्षमता को भी दर्शाता है।

आस्ति गुणवत्ता

- ॥ सकल एनपीए और निवल एनपीए 31.03.2019 के रु.15,324 करोड़ (16.40%) और रु. 4,559 करोड़ (5.52%) की तुलना में 31.03.2020 को रु.12,152 करोड़ (12.81%) और रु.4,145 करोड़ (4.77%) रहा। 31.12.2019 को सकल और निवल एनपीए का स्तर क्रमशः रु.15,746 करोड़ (16.77%) और रु.4,507 करोड़ (5.46%) था।
- ॥ प्रावधान की पर्याप्तता दर्शाते हुए 31.03.2020 को प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर 83.97% हो गया।

कोविड-19 चुनौतियों के प्रति बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रतिक्रिया

पिछले कई सप्ताह से कोविड-19 महामारी के कारण देश एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। बैंक ने स्थिति की गंभीरता को शीघ्र ही समझ लिया। बैंक ने ग्राहकों / कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न सहायक उपाय किए। 97.5% से अधिक शाखाएं और 88% एटीएम परिचालनरत थे।

बैंक ने 30 जून, 2020 तक चालू और बचत खातों में सेवा प्रभारों में छूट दी। बैंक ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत जीईसीएल योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु.100 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले सभी व्यावसायिक खातों के लिए उधारकर्ताओं के कुल बकाया ऋण (अधिकतम रु. 25 करोड़ तक) के 20% तक कार्यशील पूंजी ऋण का प्रस्ताव दे रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों ने पीएम-केयर्स कोष में रु. 5 करोड़ और मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 के लिए रु. 1 करोड़ का अंशदान दिया। बैंक ने शाखाओं में ग्राहकों की भेंट के दौरान विभिन्न निवारक उपाय किए हैं जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र प्रदान करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। देश भर के सभी 32 अंचल कार्यालयों के माध्यम से, बीओएम ने फेस मास्क, दस्ताने, पानी की बोतलें, भोजन के पैकेट, कैनोपी अंब्रेला, ग्राँसरी वस्तुएं आदि का वितरण करके 'कोरोना वारियर्स' का समर्थन करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की हैं।

शीर्ष व्यवसाय

विवरण	को			वृद्धि
	मार्च 19	दिसं 19	मार्च 20	वर्ष दर वर्ष
कुल व्यवसाय	234117	235867	250457	6.98%
जमाराशियां	140650	141986	150066	6.69%
जिसमें से कासा	69830	68246	75475	8.08%
कुल जमाराशियों में कासा अंश (%)	49.65%	48.07%	50.29%	
सकल अग्रिम	93467	93882	100391	7.41%
सकल निवेश	60164	60521	58171	(3.31%)

लाभप्रदता

विवरण	समाप्त तिमाही		वृद्धि		समाप्त वर्ष		वृद्धि
	मार्च 19	दिसं 19	मार्च 20	वर्ष दर वर्ष	मार्च 19	मार्च 20	वर्ष दर वर्ष
कुल आय	3161	3459	2848	(9.90%)	12397	12794	3.20%
कुल व्यय	2660	2617	2684	0.89%	10199	10378	1.76%
परिचालन लाभ	501	842	164	(67.23%)	2198	2416	9.93%



कर के अलावा प्रावधान व आकस्मिकताएं	415	917	-2190	(627.74%)	7327	7	(99.90%)
कर पूर्व लाभ	86	(76)	2354	2637.58%	(5129)	2409	(146.97%)
कर व्यय	14	(211)	(23)		(345)	(299)	(13.22%)
निवल लाभ	72	135	2377		(4784)	2708	

तुलन पत्र

देयताएं	को		
	मार्च 19	दिसं 19	मार्च 20
पूंजी	2753	5824	5824
आरक्षितियां व अधिशेष	2986	4875	7251
जमाराशियां	140650	141986	150066
उधारियां	10149	7820	3767
अन्य देयताएं व प्रावधान	7997	2937	4715
कुल	164536	163442	171623
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेष	7920	7527	10353
अल्प सूचना व मांग पर राशि तथा बैंकों के पास शेष	1235	80	55
निवेश	59697	60116	58171
अग्रिम (निवल)	82666	82618	89588
स्थिर आस्तियां	1776	1711	1675
अन्य आस्तियां	11242	11392	11781
कुल	164536	163442	171623

निवेशकों के लिए प्रस्तुति को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर अलग से दिया जा रहा है।